



TEST REQUISITION FORM

Test Name/Test Code

(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

1 - HPE Biopsy (small)

Patient Details

First Name: Mr. Sanjay Last Name: Sharma

Age: 34 Gender: Male Female

Address: _____

Contact No.: _____

E-mail ID: _____

Referred by: Vijay Swaroop Contact No.: _____

For Maternal Screening - Date of Birth:

Weight: _____ kg. Height: _____ ft _____ inches, LMP _____ Last Ultrasound Report _____

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Billing Information

Client Name: Star Hospital

Client ID: _____

Total Amount: 250

Amount Received: _____ Receipt No.: _____

Amount Balance / Due: _____

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- Serum
- Plasma: EDTA/FL/CIT
- SST
- W. Blood EDTA
- W. Blood Fluoride
- W. Blood Heparin
- W. Blood Sodium Citrate
- Bone Marrow
- FN Aspirate
- Tissue Formalin
- Paraffin Block
- Smear
- Slide (H&E)
- Pus
- Blood Culture Bottle
- CSF
- Fluid
- BAL
- Sputum
- Urine
- Stool
- Swab
- Others

Other Sample Type / Source: _____

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Date: _____ Time: _____

Patient ID _____ No. of vials/container _____

1 _____ 2 _____

Signature of Accessioning Officer(s)

Total No. of Vials/Container _____

Specimen Collection Information

Date: 20/11/18 Time: _____

Fasting: Yes No Fasting Period: _____ Hrs.

Collection by: _____

Urine Volume: _____ ml Hrs. _____

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यू प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उससे से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कभी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यू प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यू प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client/Doctor's Signature
Date: _____

LAB NO.

--	--	--	--	--	--	--


Dr. Lal Path Labs Ltd.

Regd. Office: "Eskay House", 54, Hanuman Road, New Delhi-110 001
 E-mail: lalpathlabs@lalpathlabs.com Website: www.lalpathlabs.com

HISTOPATHOLOGY REQUISITION FORM

Corporate Star Harpita Referring Doctor Vignay Date 26-18
 Name m. Sanjay Date of Birth 34 ym Sex : Male / Female
 Telephone _____ Collection Centre _____ RCC _____
 (if different)

Site of Specimen :

Scapula region

Relevant Clinical History :

Swelling for 2yrs.
Unilateral.! Infected Sub. 4/18

Additional Clinical and Relevant Data :

Not relevant.

(Previous Biopsy / FNAC / X-Ray etc.) Clinical Diagnosis :

Type of Specimen

 Large Medium Small
 Miscellaneous IHC markers Special Stains Microphotography

Histopath Slides / Block for review :

Fixation

 Adequate In adequate

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM :

1. Please tick appropriate boxes only as
2. Please furnish complete clinical details along with Request form.
3. Samples details not covered above should be entered in Miscellaneous box.
4. Do not omit telephone number of Patient / Referring Doctor.
5. Immerse specimen completely in appropriate fixative (10% formalin / others) before dispatch
6. Rs. 200/- extra charges for microphotography requests.